



पत्रांक:—मे०का०दे० / ज्ञाप / 2022—23

दिनांक 23/02/2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित चिकित्सा शिक्षकों का चयन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—मे०का०दे० / निरस्त / विज्ञापित / फैंकल्टी / 2022—23 / 1443, दिनांक—24.01.2023 को विज्ञापन किया गया था।

अपरिहार्य कारणों से उक्त विज्ञापन से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक—04.03.2023 तक बढ़ायी जाती है। विज्ञापन के पदों की संख्या एवं शर्तें विज्ञापन के अनुसार मान्य होगा।

प्रधानाचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक:—मे०का०दे० / ज्ञाप / 2022—23 / 1596 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
04. मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
05. जिलाधिकारी, देवरिया / जिला सूचना अधिकारी देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को जिला देवरिया की वेबसाइट <https://deoria.nic.in> पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
06. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित दो अंग्रेजी एवं दो हिन्दी की समाचार पत्रों में विज्ञापित कराने का कष्ट करें, तदुपरान्त बिल की सत्यापित प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करे, जिससे नियमानुसार भुगतान किया जा सके।
07. कालेज / हास्पिटल नोटिस बोर्ड।
08. कालेज वेबसाइट।


प्रधानाचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



कार्यालय, प्रधानाचार्य, महर्षिदेवरहाबाबास्वशासीराज्य चिकित्सामहाविद्यालय, देवरिया, उ०प्र० 274001
Office, Principal, MaharshiDevarha Baba Autonomous State Medical College, Deoria, UP-274001

Website: - mdbmc.in Tel.No- 05568297433

email: - mdbmc2022@gmail.com



पत्रांक:-मे०का०दे०/विज्ञप्ति/फैकल्टी/ 2022-23/1444

दिनांक 24/01/23

विज्ञप्ति

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत है:-

क्र.सं.	विशिष्टता	आचार्य				सह-आचार्य				सहायक आचार्य			
		GEN.	EWS	OBC	SC	GEN.	EWS	OBC	SC	GEN.	EWS	OBC	SC
01	आर्थोपैडिक्स	-	-	01	-	-	-	01*	01	-	-	-	
02	आथलमोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	आब्स्ट्रैटिक्स एण्ड गाइनकोलॉजी	-	-	-	01*	-	-	-	-	-	01*	-	
04	इमरजेन्सी मेडिसिन	-	-	-	-	-	01*	-	01*	-	-	-	
05	एनाटॉमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	
06	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	-	-	01*	-	-	01*	-	01*	-	
07	ऑटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01*	-	
08	कम्युनिटी मेडिसिन	01	-	-	-	01	-	-	01	01	-	01	
A	यू०एच०टी०सी० (मेडिकल आफिसर- हेल्थ कम-लेक्चरर/ सहायक आचार्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	
B	आर०एच०टी०सी० (मेडिकल आफिसर- हेल्थ कम-लेक्चरर/ सहायक आचार्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	
C	स्टैटिस्टियन-कम-सहायक आचार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	
09	जनरल मेडिसिन	-	-	01*	-	01*	-	01*	-	-	-	01	01*
10	जनरल सर्जरी	-	-	01	-	-	01*	01*	-	-	-	-	
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	01*	01	-	-	
12	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	-	-	01*	-	-	-	-	-	01	
13	डेंटिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	पीडियाट्रिक्स	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	
15	पैथालोजी	-	-	-	01	01	-	-	-	01	-	01	
16	फार्माकोलॉजी	01	-	-	-	-	-	-	01*	-	01	01	
17	फिजियोलॉजी	-	-	-	01*	-	-	-	-	-	01*	-	
18	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-	
19	बायोकेमिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	01*	-	-	-	01*	
20	माइक्रोबायोलॉजी	01	-	-	-	-	-	-	-	01*	-	-	
21	रेडियोडायग्नोसिस	-	-	-	-	-	-	01*	-	-	-	01	
22	साइकियाट्री	-	-	-	-	-	01*	-	-	01	-	-	
कुल योग		03	01	04	03	05	02	06	06	09	03	09	06

* संचित रिक्तियों (Backlog Vacancies)

EWS अभ्यर्थी के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.01.2019 के प्रस्तर 6.3 में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुसार " यदि किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विन्हाकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जायेगा और उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा" मान्य होगा।

01. आयु:- उपर्युक्त पदों के लिये अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम उम्र 26 से कम एवं अधिकतम उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।



02. वेतनमान:-

क. आचार्य-एकेडमिक लेवल-14 इन्ट्री पे रू०- 1,44,200.00

ख. सह आचार्य-एकेडमिक लेवल-13ए इन्ट्री पे रू०-1,31,400.00

ग. सहायक आचार्य-एकेडमिक लेवल-11 इन्ट्री पे रू०-68,900.00

(राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य को प्रदत्त वेतन/भत्ते मान्य होंगे।)

03. आवेदन शुल्क:-

रूपये-1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) को आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में "प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया" के पक्ष में देय होगा।

04. चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

05. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

06. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रपत्र को (वेबसाइट <http://mdbmc.in> और www.updgme.com) से डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर, अपने समस्त प्रमाण पत्रों को सत्यापित करते हुये दिनांक 20.02.2023 को सायं 05:00 बजे तक प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया- 274001 में केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

07. अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

महत्वपूर्ण:- 08. पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन-मे०का०दे०/विज्ञापित/फैकल्टी/2022-23/1182 दिनांक 02.12.2022 में उल्लिखित श्रेणियों के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदन पत्र मान्य एवं स्वीकार्य होंगे। समुचित संवर्ग (Category) से सम्बंधित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

Qualification and pay scale for selected candidates as Designate Professor and Designate Associate Professor:-

- 01. Designate Professor:** "The requisite experience for equating a Consultant or Specialist (After possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in the minimum 300 bedded State Government/Central Government Hospitals as professor shall be more than 18 years with four Research publications in indexed journal as 1st Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be called as "Designate Professor" and on completion of three years experience in the capacity of Designate Professor such person shall be designated as "Professor" as per MCI norms.
- 2. Designate Associate Professor:** "The requisite experience for equating a Consultant or specialist (after possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in the minimum 300 bedded non teaching District Hospitals owned & managed by State Govt/Central Govt. as Associate professors shall be more than 10 years with Two Research publication in indexed journals as 1st Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be designate as "Associate Professor"
3. वेतनमान आदि:- मूल विभाग से प्राप्त देयतायें, वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि यथावत देय होंगी।
4. Designate Professor and Designate Associate Professor will be considered on deputation from their parent department.

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक:-मे०का०दे०/विज्ञापित/फैकल्टी/ 2022-23

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० शासन लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० शासन लखनऊ।
03. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
04. जिलाधिकारी, देवरिया।
05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के पश्चात बिल सत्यापित कर, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करें।
06. इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया की वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित की इस विज्ञापित को वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
07. समस्त नोटिस बोर्ड, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

प्रधानाचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

-:Qualifications:-

Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Exp.
Professor	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per these Regulations	<p>(i) Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/ recognized medical college/institution with three Research publications (at least two as Associate Professor) (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author.</p> <p>(ii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI.</p> <p>(iii) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI.</p> <p>As per NMC Gazette Dated 17, February, 2020, for the appointment to the post of Professor "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification will also be Considered.</p>
Associate Professor	A post graduate qualification MD/MS/ DNB in the concerned subject and as per these Regulations	<p>(i) As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/recognized medical college/ institution with one Research publication (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author.</p> <p>(ii) Research project in lieu of publication/authorship can be considered only if the person is Principal or Co-Principal investigator (PI/CoPI) of a research project funded by a national research body such as Indian Council for Medical Research (ICMR), Department of Science & Technology (DST), Department of BioTechnology (DBT) or any such body.</p> <p>(iii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI.</p> <p>(iv) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI.</p> <p>As per NMC Gazette Dated 17, February, 2020, for the appointment to the post of Associate Professor "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification will also be Considered.</p>
Assistant Professor	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	<p>For Candidates with MD/MS, 3 years Junior Resident in a recognized/permitted medical college in the concerned subject and One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college. In case of DNB candidate one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college is required after DNB degree being equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I.</p> <p>For No. 13 (Asstt Professor- Dentistry)-</p> <p>(i) <i>Post graduate degree in the subject concerned (M.D.S.) or an equivalent qualification as recognized by appropriate council.</i></p> <p>(ii) Three years of teaching experience in the Subject in a recognized Medical College/University/Institution as resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor as a postgraduate Student and in addition one year experience as Senior Resident in the concerned subject in a recognized Medical College/ University/Institution.</p>

**MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE
MEDICAL COLLEGE, DEORIA, UTTAR PRADESH**

Application Format

Advertisement Number and Date.....

Post.....(The Post for which the application is being made)

Note: - All information must be completed by the applicant.

Self Attested
Photo

- 1- Name of Applicant.....
- 2- Male / Female.....
- 3- Father / Husband's Name (including Surname).....
- 4- Present Address of Residence (including PIN code).....
.....
.....
Name of the City..... Phone No.....
Mobile Number..... Email ID.....
- 5- Permanent address.....
.....
Name of the City..... Mobile No.....
- 6- Aadhar card number (if Any).....
- 7- Date of birth (enclose the mark sheet of high school examination).....
- 8- Age of applicant as on 01-07-2022..... Day..... Month..... Year.....
- 9- Applicant's Marital Status- Married / Unmarried.....
- 10-Date of marriage.....
- 11-Category: Unreserved / Scheduled Caste / Scheduled Tribes / Other Backward
Classes / Disabled.....
(Attach photocopy of certificate issued by competent authority for reserved category)
- 12-Registration Number and Name of the Medical Council and Date.....
 - a- MBBS-.....
 - b- MD/ MS-.....
 - c- MCH/ DM.....

13-Educational Qualifications: (Enclose attested photo copies of certificates and marks sheets)

No.	Name of the Examination	Institution / Board / University	Year	Subject	Marks Obtained / Max Marks	MBBS Total Marks / percentage	effort (attempts)
1	MBBS						
2	MD/MS						
3	DM/MCH						

14-Educational experience:-

No.	Designation	From	To	Duration	Name of the Institution
1	Professor				
2	Associate Professor				
3	Asstt. Professor				
4	S.R. / Tutor / Demonstrator				

(Attach experience certificate)

15-Research Publications:-

No.	Designation	Research Publications
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Asstt. Professor	
4	S.R. / Tutor / Demonstrator	

(Attach Photo Copy)

16-If candidates serving in Government/ Quasi Government or Public Sector are advised to submit 'No Objection Certificate' from their employer at the time of interview, failing which their candidature may not be considered.

17-Demand Draft Detail- Date....., Amount-.....
Bank Name....., DD No.....

18-List of attached certificates as per checklist.....

Place.....

Date.....

Full name and Signature of the Applicant

// Announcement //

- 1. I certify that the above information given by me is complete and true. In the event of information being false, my application form / appointment letter can be cancelled.**
- 2. I certify that I have not been found guilty by any court of any offense of moral decimation nor is there any such case against me in any jurisdiction.**

Place.....

Date.....

Full Name and Signature of the Applicant